

काम कोई भी कर नहीं पाया,  
घूम लिया संसार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

क्या कहना दरबार का,  
ये सच्चा दरबार है,  
शीश झुकाकर देख जरा,  
फिर तो बेड़ा पार है,  
तेरा संकट दूर करेगा,  
बाबा पहली बार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

जब जब मैंने नाम लिया,  
तब तन मेरा काम किया,  
जब जब नैया डोली हैं,  
उसने आकर थाम लिया,  
बारह महीनो मने दीवाली,  
अब मेरे परिवार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

अब चिंता की बात नहीं,

खुटी तान के सोता हूँ,  
जब कोई आफत आए,  
इनके आगे रोता हूँ,  
इनका पेहरा लगने लगा है,  
अब मेरे घर बार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

इनके पाँव पकड़ ले तू,  
काम तेरा हो जाएगा,  
इसकी कृपा हो जाए,  
बैठा मौज उड़ाएगा,  
बनवारी क्यों घूम रहा है,  
जगह जगह बेकार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

काम कोई भी कर नहीं पाया,  
घूम लिया संसार में,  
आखिर मेरा काम हुआ,  
बाबा के दरबार में ॥

स्वर राजा अग्रवाल ।



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>